



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 19, 2007/अग्रहायण 28, 1929

No. 232]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 19, 2007/AGRAHAYANA 28, 1929

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

तिरुवनन्तपुरम, 17 दिसम्बर, 2007

दो निदेशकों का चुनाव

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25(1)(डी) के तहत बैंक के निदेशक श्री टी. बालकृष्णन तथा श्री के. टी. राजगोपालन का कार्यकाल दिनांक 31 जनवरी, 2008 को समाप्त हो रहा है। अतः उक्त रिक्तियों को तीन वर्ष तक के लिए भरना आवश्यक हो गया है। तदनुसार दो निदेशकों के निर्वाचन हेतु उन शेयरधारकों से नामांकन आमंत्रित किये जाते हैं जो धारा 25ए के अंतर्गत निर्धारित उचित एवं सही स्टेट्स और उक्त अधिनियम की धारा 27 के तहत अयोग्य न हों। ऐसे नामांकन जो सभी प्रकार से पूर्ण हों, बैंक के प्रधान कार्यालय, पूजप्पुरा, तिरुवनन्तपुरम-695012 में दिनांक 15 जनवरी, 2008 को सायं 5 बजे या उससे पूर्व अवश्य पहुंच जायें। इस तिथि तथा समय के बाद प्राप्त नामांकन स्वीकार नहीं होंगे।

उपर्युक्तानुसार दो निदेशकों के निर्वाचन उद्देश्यार्थ स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के शेयरधारियों की सामान्य बैठक बृहस्पतिवार दिनांक 31 जनवरी, 2008 समय 11 बजे पूर्वाह्न (भा.मा.स.) के अनुसार ए.के.जी. मेमोरियल हॉल, गैस हाउस जंक्शन, पालयम, तिरुवनन्तपुरम-695034 में आयोजित की जाएगी।

प्रदीप शंकर, प्रबंध निदेशक

[विज्ञापन III/IV/356/2007/असाधा.]

नोट.—उपर्युक्त दोनों रिक्तियों के लिए केवल दो वैध नामांकन मिलने की स्थिति में इन रिक्तियों हेतु प्राप्त वैध नामांकित उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाएगा और कोई निर्वाचन नहीं होगा तथा इस उद्देश्यार्थ बुलाई गई सामान्य बैठक भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) सामान्य विनियम, 1959 के विनियम 33(1) की शर्तों के अनुसार रद्द की जाएगी। ऐसे निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम व पते सामान्य बैठक की निर्धारित तिथि से पूर्व प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे।

STATE BANK OF TRAVANCORE

Thiruvananthapuram, the 17th December, 2007

ELECTION OF TWO DIRECTORS

Notice is hereby given that the tenure of the office of Shri K. T. Rajagopalan and Shri T. Balakrishnan, Directors of the Bank elected u/s 25(1)(d) of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, will expire on 31st January, 2008. It has, therefore, become necessary to fill up the said vacancies for a period of three years. Accordingly, for the election of two Directors, nominations are invited from the shareholders who are fit and having proper status as prescribed under Section 25A and not disqualified u/s 27 ibid. Such nominations, complete in all respects, must reach the Bank at its Head Office, Poojappura, Thiruvananthapuram-695012, on or before the 15th January 2008, 5 P.M. Nominations received after this date and time will not be accepted.

For the purpose of election of two Directors as above, a General Meeting of the shareholders of the State Bank of Travancore will be held at A.K.G. Memorial Hall, Gas House Junction, Palayam, Thiruvananthapuram-695034, on Thursday, the 31st January, 2008 at 11 A.M. (IST).

PRADEEP SHANKAR, Managing Director

[ADVT III/IV/356/2007/Exty.]

Note.—In the event of receipt of only two valid nominations for the above two vacancies, the candidates validly nominated for such vacancies shall be deemed to be elected and there shall not be any election and the above General Meeting called for this purpose shall stand cancelled in terms of Regulation 33(1) of the State Bank of India (Subsidiary Banks) General Regulations, 1959. The names and addresses of the candidates so elected will be published in leading newspapers before the date fixed for the General Meeting.